



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 18] नई दिल्ली, जून 15—जून 21, 2008, शनिवार/ज्येष्ठ 25—ज्येष्ठ 31, 1930
No. 18] NEW DELHI, JUNE 15—JUNE 21, 2008, SATURDAY/JYAISTHA 25—JYAISTHA 31, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग
आदेश

नई दिल्ली, 9 जून, 2008

आ. अ. 48.—जबकि निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया कि नीचे की सारणी (2) में यथा विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के उप-निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्विषयक नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और जबकि, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर यदि कोई भी विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हता घोषित करता है।

सारणी

| क्रम सं. | निर्वाचन क्षेत्र का विवरण | निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम | निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता | निरर्हता का कारण |
|----------|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए उप-निर्वाचन, 2007 | 20-स्वार टोंडा | मौ. जईम, मौ. अगलगा, पो. स्वार, तह. स्वार, रामपुर। | निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|----------------|---|---|
| 2. | उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए उप-निर्वाचन, 2007 | 20-स्वार टोंडा | जावेद अख्तर, मौ. चक स्वार-1, तह. स्वार, रामपुर । | निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 3. | -वही- | -वही- | फरहत अली खाँ, मो. पुराना गंज, मस्जिद लोहारान, रामपुर । | -वही- |
| 4. | -वही- | 25-गुन्नौर | सुरेश, ग्राम-केवलपुर तिपेड़ा, पो.-शाहजहानाबाद, बदायूँ । | -वही- |

[सं. 76/उ.प्र.-वि.स./2007 (उप)]

आदेश से,

आर. के. श्रीवास्तव, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 9th June, 2008

O.N. 48.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the table below at the Bye-Elections to the Legislative Assembly in the State of Uttar Pradesh as specified in column (2) held from the Constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge the account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said table;

And, whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notices and/or the Election Commission, after considering the representation made by them, if any is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

| Sl. No. | Particulars of Election | Sl. No. and Name of Constituency | Name & Address of Contesting Candidates | Reason of Disqualification |
|---------|--|----------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Bye-Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2007 | 20-Suar Tanda | Mohd. Zaeem. Moh. Aglaga, P.O. Swar, Teh. Swar, Rampur. | Failed to lodge any account of his/her election expenses. |
| 2. | -do- | -do- | Javed Akhter, Moh. Chakswar-1, Teh. Swar, Rampur. | -do- |
| 3. | -do- | -do- | Farhat Ali Khan, Moh. Purana Ganj, Masjid Loharan, Rampur. | -do- |
| 4. | -do- | 25-Gunnaur | Suresh, Village-Kewalpur Tipera, P.O. Shahjahanabad, Budaun. | -do- |

[No. 76/UP-LA/2007 (Bye)]

By Order,

R. K. SRIVASTAVA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 जून, 2008

आ. अ. 49.—जबकि निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी (2) में यथा विनिर्दिष्ट दिसम्बर, 2007 में हिमाचल प्रदेश राज्य-क्षेत्र से हुए विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में तदनुरूपी विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, के स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और जबकि, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्वारा निरहित घोषित करता है।

सारणी

| क्रम सं. | निर्वाचन का विवरण | निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम | निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता | निरहता का कारण |
|----------|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | हिमाचल प्रदेश राज्य क्षेत्र के विधान सभा 2007 के लिए साधारण निर्वाचन | 8-शिमला | सर्व/श्री राजेश शर्मा, 108, कृष्णानगर, शिमला (हि.प्र.)। | निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 2. | यथा | यथा | श्री सुरेन्द्र राजपूत, शांति निवास पंथाघाटी, शिमला (हि.प्र.) | यथा |
| 3. | यथा | 9-कुसुम्पटी | श्री रणजीत कुमार, गाँव चमरोग डा. तारादेवी, तहसील व जिला शिमला, (हि.प्र.) | यथा |
| 4. | यथा | 22-घुमारवीं | श्री राम, गाँव व डाकघर कुठेडा, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि.प्र.) | यथा |
| 5. | यथा | यथा | श्री बुद्धि सिंह चौहान, गाँव खैरी (भपराल), डाकघर भपराल उप तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि.प्र.) | यथा |
| 6. | यथा | 29-गगरेट | अशोक कुमार, गाँव व डाकघर चलेट, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि.प्र.) | यथा |
| 7. | यथा | 36-जबाली | दिलावर सिंह छोटा, गाँव कल्याट, डाकघर ढसोली, तहसील ज्वाली, जिला कांगडा (हि.प्र.) | यथा |
| 8. | यथा | 43-बैजनाथ | ज्ञान चन्द ठाकुर, गाँव व डाकघर गुनेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगडा (हि.प्र.) | यथा |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|--------------------|---|---|
| 9. | हिमाचल प्रदेश राज्य क्षेत्र के विधान सभा 2007 के लिए साधारण निर्वाचन | 43-बैजनाथ | व्यास देव मैहरा, गांव व डाकघर मझौरना, तहसील बैजनाथ, जिला कांगडा (हि.प्र.) | निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 10. | यथा | 46-नगरोटा | दीपक शर्मा, गांव व डाकघर पठियार, तहसील व जिला कांगडा, (हि. प्र.) | यथा |
| 11. | यथा | 47-शाहपुर | पोरस कुमार, गांव व डाकघर दरगेली, तह. शाहपुर, जिला कांगडा (हि.प्र.) | यथा |
| 12. | यथा | यथा | बलबीर चौधरी, गांव कलियाडा, डा. नागनपट्टा, तह-धर्मशाला, जिला कांगडा (हि.प्र.) | यथा |
| 13. | यथा | 49-कांगडा | चौधरी देवी लाल, गांव व डाकघर मटौर, तहसील व जिला कांगडा (हि.प्र.) | यथा |
| 14. | यथा | 63-बल्ह (अ.जा.) | रमेश चन्द, गांव व डाकघर बैहना, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि.प्र.) | यथा |
| 15. | यथा | 64-गोपालपुर | महेश्वर सिंह, गांव भरनाल, डाकखाना ढलवान, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी (हि.प्र.) | यथा |
| 16. | यथा | 67-दरंग | तेज राम, गांव शिल्हा, डाकघर शिवा बदर, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि.प्र.) | यथा |

[सं. 76/हि.प्र.-वि.स./2008(1)]

आदेश से,

स्टेन्डहोप युहलंग, सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th June, 2008

O.N. 49.—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that the contesting candidates specified in column (4) of the table below at the General Election to the Legislative Assembly held from Himachal Pradesh in December, 2007 as specified in column (2) and held from the constituencies correspondingly specified in column (3) against their names have failed to lodge the account of their election expenses, as shown in column (5) of the table, as required by the Representation of the People Act, 1951, and to Rules made there under.

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice of the Election Commission, after considering the representation made by them, if any, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order.

TABLE

| Sl. No. | Particulars of Election | Sl. No. and Name of Assembly Constituency | Name and Address of Contesting Candidates | Reason for Disqualification |
|---------|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | General Election to the Legislative Assembly of Himachal Pradesh 2007 | 8-Shimla | S/Sh Rajesh Sharma, 108-Krishna Nagar, Shimla (H.P.) | Failed to lodge any account of election expenses. |
| 2. | -do- | -do- | Surender Rajput, Shanti Niwas, Panthaghati, Shimla-9, (H.P.) | -do- |
| 3. | -do- | 9-Kashumpti (SC) | Ranjit Kumar, Vill. Chamrog, P.O. Taradevi, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) | -do- |
| 4. | -do- | 22-Ghumairwin | Shri Ram, Village & P.O. Massour, Tehsil Ghumarwin, Kuthera, Distt. Bilaspur (H.P.) | -do- |
| 5. | -do- | -do- | Budhi Singh Chauhan, Village Khairi (Bhapral) P.O. Bhapral, Sub Tehsil Bharari, Distt. Bilaspur, (H.P.) | -do- |
| 6. | -do- | 29-Gagret (SC) | Ashok Kumar, VPO. Chalet, Tehsil Amb, Distt. Una (H.P.) | -do- |
| 7. | -do- | 36-Jawali | Dilaber Singh Chhotu, Vill. Kanyat, P.O. Dhasoli, Tehsil Jawali, Distt. Kangra (H.P.) | -do- |
| 8. | -do- | 43-Bajjnath | Gian Chand Thakur, VPO-Gunehar, Tehsil Bajjnath, Distt. Kangra. (H.P.) | -do- |
| 9. | -do- | -do- | Vyas Dev Mehra, VPO. Majhera, Tehsil Bajjnath, Distt. Kangra (H.P.) | -do- |
| 10. | -do- | 46-Nagrota | Deepak Sharma, VPO. Pathiar, Tehsil & Distt. Kangra (H.P.) | -do- |
| 11. | -do- | 47-Sahapur | Pourush Kumar, VPO. Durgella, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) | -do- |
| 12. | -do- | -do- | Balbir Choudhary, Vill. Kaliara, P.O. Nagan Pat, Teh. Dharmshala, Distt. Kangra (H.P.) | -do- |
| 13. | -do- | 49-Kangra | Chaudhary Devi Lal, VPO. Mataur, Tehsil & Distt. Kangra (H.P.) | -do- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|--------------|--|---|
| 14. | General Election to the Legislative Assembly of Himachal Pradesh 2007 | 63-Balh (SC) | Ramesh Chand, Vill. & P.O. Behna, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.) | Failed to lodge any account of election expenses. |
| 15. | -do- | 64-Gopalpur | Maheśwar Singh, Vill. Bharnal, P.O. Dhalwan, Tehsil-Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.) | -do- |
| 16. | -do- | 67-Darang | Tej Ram, Vill. Shilha P.O. Shiva Badar, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.) | -do- |

[No. 76/HP-LA/2008 (1)]

By Order,

STANDHOPE YUHLUNG, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 जून, 2008

आ. अ. 50.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट बिहार राज्य से विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2005 (अक्टूबर-नवम्बर) के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्विन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

सारणी

| क्रम सं. | निर्वाचन का विवरण | विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम | निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता | निरर्हता का कारण |
|----------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2005 (अक्टूबर-नवम्बर) | 32-जीरादेई | श्री शम्भू राम, ग्राम-पोस्ट-तरवारा, थाना-जी.बी.नगर, जिला-सिवान, बिहार | निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल नहीं किया। |
| 2. | -वही- | 93-कल्याणपुर | राजनारायण सिंह, ग्राम-पो.-मोरसंड, थाना-पूसा, जिला-समस्तीपुर | -वही- |

[सं. 76/बिहार-वि.स./2007]

आदेश से,

आर. के. श्रीवास्तव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th June, 2008

O.N. 50.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the table below at the General-Election to the Legislative Assembly, 2005 (October-November) from the State of Bihar as specified in column (2) held from the Constituency specified in column (3) against his/her name has failed to lodge any account of his/her election expenses at all or in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951 and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said Table;

And, whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice or the Election Commission, after considering the representation made by them, if any is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either house of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union territory for a period of three years from the date of this order :-

TABLE

| Sl. No. | Particulars of Election | No. and Name of the Constituency | Name and Address of the Candidate | Reason of Disqualification |
|---------|---|----------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | General Election to the Legislative Assembly, 2005 of Bihar State (Oct.-Nov.) | 32-Ziradei | Shambhu Ram, Vill.-P.O.Tarwara, P.S.-G.B. Nagar, Distt-Siwan, Bihar | Failed to lodge any account of election expenses. |
| 2. | -do- | 93-Kalyanpur | Raj Narayan Singh, Vill & P.O.-Morsand, Thana-Pusa, Distt-Samastipur, Bihar. | -do- |

[No. 76/BR-LA/2007]

By Order,

R. K. SRIVASTAVA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 जून, 2008

आ. अ. 51.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट बिहार राज्य से लोक सभा के लिए उप-निर्वाचन, 2004 (21-मधेपुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र) के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वर्धन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

सारणी

| क्रम सं. | निर्वाचन का विवरण | निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम | निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता | निरर्हता का कारण |
|----------|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | बिहार राज्य से लोक सभा का उप निर्वाचन 2004 | 21- मधेपुरा | कमाल अशरफ, मुहल्ला-सक्का टोली, थाना-आलमगंज, पोस्ट-गुलजारबाग, पटना-800007, बिहार। | निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दायित्व करने में असफल रहे। |
| 2. | -वही- | -वही- | प्रदीप कुमार साह, ग्राम- कंटिया, पोस्ट-सोनैली, जिला-कटिहार, बिहार। | -वही- |
| 3. | -वही- | -वही- | सुरेन्द्र प्र. यादव, वाड नं. 14, थाना एवं जिला-मधेपुरा, बिहार। | -वही- |

[सं. 76/बिहार-लो.स./2006(उप)]

आदेश से,

आर. के. श्रीवास्तव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th June, 2008

O.N. 51.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the table below at the Bye-Election to the House of the People 2004(21-Madhepura Parliamentary Constituency) from the State of Bihar as specified in column (2) held from the Constituency specified in column (3) against his/her name has failed to lodge any account of his/her election expenses at all or in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951 and the rule made thereunder as shown in column (5) of the said Table;

And, whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice or the Election Commission, after considering the representation made by them, if any is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

| Sl. No. | Particulars of Election | Sl. No. & Name of Constituency | Name & Address of Contesting Candidate | Reason of Disqualification |
|---------|---|--------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Bye Election to the House of the People, 2004 | 21-Madhepura | Kamal Asaraf, Muhalla-Sakka Toli, P.S.-Alamgang, Post-Gulzarbag, Patna-800007 Bihar | Failure to lodge any account of election expenses. |
| 2. | -do- | -do- | Radeep Kumar Sah, Vill-Kantiya, Post-Sonali, Distt.-Katihar, Bihar. | -do- |
| 3. | -do- | -do- | Surendra Pd. Yadav Ward No. 14, Thana & Distt. Madhepura, Bihar. | -do- |

[No. 76/BR-HP/2006 (Bye)]

By Order,

R. K. SRIVASTAVA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 जून, 2008

आ. अ. 52.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट बिहार राज्य से विधान सभा के उप-निर्वाचन, 2005 (जनवरी-फरवरी) के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और, यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं हैं;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

सारणी

| क्रम सं. | निर्वाचन का विवरण | विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम | निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता | निरर्हता का कारण |
|----------|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2005 (जनवरी-फरवरी) | 78- मधुबनी | अबास, ग्राम-पोस्ट-सकरी, जिला-मधुबनी, बिहार। | निर्वाचन व्ययों का लेखाविधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे। |
| 2. | -वही- | 168-जमालपुर | अनूप पासवान, ग्राम- सुन्दरपुर, पोस्ट-वाहाचौकी, जिला-मुंगेर, बिहार। | निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल नहीं किया। |
| 3. | -वही- | -वही- | योगेश नंदन मंडल, ग्राम-नीरपुर, पो.-बरियारपुर, थाना-बरियारपुर, जिला-मुंगेर, बिहार | -वही- |
| 4. | -वही- | -वही- | रंजीत कुमार चौधरी, ग्राम-जमालपुर, जिला-मुंगेर, बिहार | -वही- |
| 5. | -वही- | 172-लखीसराय | मनोज कुमार, ग्राम-झुलोना, पो.-महिसोना, लखीसराय, बिहार | -वही- |
| 6. | -वही- | -वही- | रमेश सिंह, ग्राम-पो. बालगुदर, थाना व जिला- लखीसराय बिहार। | -वही- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|-------------|--|--|
| 7. | बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2005 (जनवरी-फरवरी) | 172-लखीसराय | रामनन्दन महतो, ग्राम-दोगाय, पो.-कछियाना, भाया-सिरारी, लखीसराय, बिहार । | निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल नहीं किया । |
| 8. | -वही- | -वही- | विनय सिंह, ग्राम व पो. -बालगुदर, जिला-लखीसराय, बिहार । | -वही- |
| 9. | -वही- | 209-दिनारा | कमलेश कुमार तिवारी, ग्राम-योगियां, पो.-सैसड, थाना-दिनारा, जिला-रोहतास, बिहार । | -वही- |
| 10. | -वही- | 224-अरवल | मो. अनामुल हक, ग्राम-पो.-सोन सिंहरी, थाना-मुफ्फसील, जिला-नवादा, बिहार | -वही- |
| 11. | -वही- | -वही- | सोनी कुमारी, द्वारा-फुल-कुमारी देवी रोड नं.-9, राजीवनगर, पो.-केशरी नगर, थाना-पाटलीपुत्र, पटना-800024, बिहार । | -वही- |

[सं. 76/बिहार-वि. स./2006]

आदेश से,

आर. के. श्रीवास्तव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th June, 2008

O.N. 52.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the table below at the General-Elections to the Legislative Assembly, 2005 (January-February) from the State of Bihar as specified in column (2) held from the Constituency specified in column (3) against his/her name has failed to lodge account of his/her election expenses at all or in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951 and the rule made thereunder as shown in column (5) of the said table;

And, whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice or the Election Commission, after considering the representation made by them, if any is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as, and for being a Member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

| Sl. No. | Particulars of Election | Sl. No. & Name of Constituency | Name & Address of Contesting Candidates | Reason of Disqualification |
|---------|--|--------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | General Election to the Legislative Assembly, 2005 of Bihar State (Jan. -Feb.) | 78-Madhubani | Abas, Village & P.O.-Sakri, P.S.-Sakri, District-Madhubani, Bihar. | Failure to lodge any account of election expenses in the manner required by law. |
| 2. | -do- | 168-Jamalpur | Anup Paswan, Vill-Sundarpur, Post-Bahachowki, Distt-Munger, Bihar. | Failure to lodge any account of election expenses. |
| 3. | -do- | -do- | Yogesh Nandan Mandal Vill-Nirpur PO-Bariyarpur, PS-Bariyarpur, Distt-Munger, Bihar. | -do- |
| 4. | -do- | -do- | Ranjeet Kumar, Vill-Walipur, P.O.-Jamalpur, Distt-Munger, Bihar. | -do- |
| 5. | -do- | 172-Lakhisari | Manoj Kumar, Vill-Jhulauna, PO-Mahisona, PS-Lakhisarai, Bihar. | -do- |
| 6. | -do- | -do- | Ramesh Singh, Vill-PO-Balgudar, PS-Distt-Lakhisari, Bihar. | -do- |
| 7. | -do- | -do- | Ramnandan Mahto, Vill - Dogay, PO-Kachiana, Via-Sirari, Lakhisari, Bihar. | -do- |
| 8. | -do- | -do- | Vinay Singh, Vill. & PO-Balgudar, PO & Distt- Lakhisari, Bihar. | -do- |
| 9. | -do- | 209-Dinara | Kamlesh Kumar Tiwari, Vill. Yogian, PO. Saisar, P.S. Dinara, Distt. Rohtas, Bihar. | -do- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|------------|---|--|
| 10. | General Election to the Legislative Assembly, 2005 of Bihar State (Jan.—Feb.) | 224 -Arwal | Md. Anamul Heque, Vill+PO-Son Sihari, P.S.-Mufassil, Distt. Nawada, Bihar. | Failure to lodge any account of election expenses. |
| 11. | -do- | -do- | Soni Kumari, S/o. Phul Kumare Devi, Road No.-9, Rajiv Nagar, P.O. Keshrinagar, P.S.-Patliputra, Patna-24 Bihar. | -do- |

[No. 76/BR-LA/2006]

By Order,

R. K. SRIVASTAVA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 जून, 2008

अ. अ. 53.—जबकि निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और जबकि, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

सारणी

| क्रम सं. | निर्वाचन क्षेत्र का विवरण | निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम | निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता | निरर्हता का कारण |
|----------|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007 | 59- बिसवां | रामदास, ग्राम-नौव्वाखेरा, जिला-कुतुबपुर, सीतापुर। | निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे। |
| 2. | -वही- | 79-हड़हा | जवाहर लाल उर्फ जवाहिर, ग्राम व पो. पड़रीकला, उन्नाव। | -वही- |
| 3. | -वही- | 80-भगवन्त नगर | अनिल वर्मा, ग्राम भटखेरा कला पो. धानुही खेडा, उन्नाव। | -वही- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|-------------------------|--|--|
| 4. | उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007 | 83-मलिहाबाद (अ. जा.) | विनोद कुमार, बेगरियाखेड़ा दुबग्गा, लखनऊ । | निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे । |
| 5. | -वही- | -वही- | श्री राम, हयातनगर पो. बरावन कलां, लखनऊ । | -वही- |
| 6. | -वही- | -वही- | आनन्द राव, एफ-761 राजाजीपुरम, लखनऊ । | -वही- |
| 7. | -वही- | -वही- | अजय कुमार, जेहटा, पो. काकोरी, लखनऊ । | -वही- |
| 8. | -वही- | -वही- | कामता, शिवपुरी भदवाना, लखनऊ । | -वही- |
| 9. | -वही- | -वही- | चन्द्रपाल, कनार, पो. काकोरी, लखनऊ । | -वही- |
| 10. | -वही- | -वही- | नरेश कुमार, सिन्दुरिया बाग महतवाना, पो. सण्डीला, हरदोई । | -वही- |
| 11. | -वही- | -वही- | रमेश कुमार, जनकापुर, सुक्खाखेड़ा, पो. माल, लखनऊ । | -वही- |
| 12. | -वही- | -वही- | राजेन्द्र लहरी, वीरपुर, माल, लखनऊ । | -वही- |
| 13. | -वही- | 85-लखनऊ पूर्व | अरविंद, 63-टी. सी. एल. कालोनी सरोजनी नगर, लखनऊ । | -वही- |
| 14. | -वही- | -वही- | पदमा साहू, 82/75 क गुरु गोबिन्द सिंह मार्ग, लालकुआँ, लखनऊ । | -वही- |
| 15. | -वही- | -वही- | राम लखन गुप्ता, आदर्श नगर खण्ड-1 म.सं. 633 कंचनपुर मटियारी, चिनहट, लखनऊ । | -वही- |
| 16. | -वही- | -वही- | सुरेन्द्र कुमार, म.नं.193 डुंगावा (रानीगंज), लखनऊ । | -वही- |
| 17. | -वही- | -वही- | संजय सिंह, 2-3/886 मानस नगर, लखनऊ । | -वही- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|---------------|---|--|
| 18. | उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007 | 85-लखनऊ पूर्व | गिरीश दत्त पाण्डे ई-7 पाण्डे का तालाब कालोनी, लखनऊ । | निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे । |
| 19. | -वही- | 87-लखनऊ मध्य | नागेन्द्र मोहन, 256/11 खजुहा, लखनऊ । | -वही- |
| 20. | -वही- | -वही- | मंजूर अहमद, सी- 189 इन्दिरा नगर, लखनऊ । | -वही- |
| 21. | -वही- | -वही- | गुलाब चन्द, गाजी हैदर कैनाल बी. ब्लाक राजाजीपुरम, लखनऊ । | -वही- |
| 22. | -वही- | -वही- | मोहम्मद आरिफ, 193/61 गौसगंज थाना, वजीरगंज, लखनऊ । | -वही- |
| 23. | -वही- | -वही- | सतीश चन्द्र सिंह, ई. 2268 से.-6, राजाजीपुरम, लखनऊ । | -वही- |
| 24. | -वही- | -वही- | अंकुर कुमार, 417/41/212 पन्नी वाली, गली नेवाजगंज, लखनऊ । | -वही- |
| 25. | -वही- | -वही- | प्रवेश कुमार सिंह, 12/1 बारह क्वाटर चित्ता, खेडा, ऐशबाग, लखनऊ । | -वही- |
| 26. | -वही- | -वही- | रवी दुबे, एफ 1/8 राजाजीपुरम, लखनऊ । | -वही- |
| 27. | -वही- | 89-सरोजनीनगर | संतोष कुमार यादव, ग्राम सल्लाही मऊ, पो. महमूदपुर मऊ, लखनऊ । | -वही- |
| 28. | -वही- | -वही- | पंकज कुमार रावत, बाग नं. 02, सरोजनीनगर, कानपुर रोड, लखनऊ । | -वही- |
| 29. | -वही- | -वही- | बचान सिंह यादव, ग्राम व पो. मौंदा, थाना काकोरी, जिला लखनऊ । | -वही- |
| 30. | -वही- | -वही- | राकेश कुमार मौर्य, ई-1194 राजाजीपुरम, लखनऊ -16 | -वही- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|--------------------------|--|--|
| 31. | उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007 | 89-सरोजनीनगर | लल्लू यादव ग्राम व म.नं. 295, बड़गाँव, पो. काकोरी, तह. व जिला लखनऊ । | निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे । |
| 32. | -वही- | -वही- | कृष्ण कुमार पाण्डेय, ग्राम सलेमपुर पतौरा, काकोरी, लखनऊ । | -वही- |
| 33. | -वही- | -वही- | चन्द्रावती, ग्राम सादुल्लाखेड़ा, पो. चन्द्रावल, तहसील सदर, लखनऊ । | -वही- |
| 34. | -वही- | -वही- | बैजनाथ, ग्राम अकबरपुर बेनीगंज, पो. हमालपुर, लखनऊ । | -वही- |
| 35. | -वही- | -वही- | वहीद खॉं, ग्राम गौरियाखुर्द, मजरा गौरियाकलां, पो. रसूलपुर, टिकनियामऊ, तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ । | -वही- |
| 36. | -वही- | -वही- | श्रवण कुमार, ग्राम सलेमपुर पतौरा, पो. काकोरी, लखनऊ । | -वही- |
| 37. | -वही- | -वही- | एस. एन. सिंह, 31/2 पाठकपुरम, उतरेठिया, लखनऊ-25 | -वही- |
| 38. | -वही- | -वही- | राम सनेही यादव, ग्राम पुराही खेड़ा, मजरा खाण्डेदेव, पो. बन्थरा, जिला लखनऊ । | -वही- |
| 39. | -वही- | -वही- | सुनील कुमार, ग्राम सादुल्लानगर, पो. तेरवा, लखनऊ । | -वही- |
| 40. | -वही- | 90-मोहनलालगंज (अ.जा.) | राम सुचित रावत, ग्राम अमवा मुरतजापुर, मोहनलालगंज, लखनऊ । | -वही- |
| 41. | -वही- | -वही- | दिनेश, ग्राम सोनई कजेरा, पो. बवकास, मोहनलालगंज, लखनऊ । | -वही- |
| 42. | -वही- | -वही- | राघववेन्द्र भारती, ग्राम टोनिया बिहारीपुर, पो. मऊ यदुवंशपुर, जिला फैजाबाद । | -वही- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|---------------------------------|--|--|
| 43. | उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007 | 90-मोहनलालगंज (अ.जा.)-(जारी) | श्याम बिहारी, ग्राम महुराकलां पो. हसनापुर, लखनऊ । | निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे । |
| 44. | -वही- | 119-बीकापुर | नहे लाल, ग्राम व पो.-कनावां, तहसील -बीकापुर, जिला-फैजाबाद । | -वही- |
| 45. | -वही- | -वही- | भानु प्रताप सिंह उर्फ भयंकर अली खान, ग्राम व पो.-असरेवा, बीकापुर, फैजाबाद । | -वही- |
| 46. | -वही- | -वही- | राजाराम, ग्राम व पो. नेतवारी चतुरपुर, तहसील-बीकापुर, जिला-फैजाबाद । | -वही- |
| 47. | -वही- | -वही- | राम कुमार, ग्राम व पो.-पालीअचलपुर, तहसील -बीकापुर, जिला- फैजाबाद । | -वही- |
| 48. | -वही- | -वही- | नरेन्द्र कुमार, ग्राम-तेन्दुआमाफी मकान नं.-35, बीकापुर, फैजाबाद । | -वही- |
| 49. | -वही- | 122-रूदौली | बीरेन्द्र कुमार, ग्राम-पिरखौली, पो.-बडागांव, तह.-सोहावल, फैजाबाद । | -वही- |
| 50. | -वही- | 137-इकौना (अ.जा.) | कल्लू, ग्राम व पोस्ट-कलवारी जिला -बलरामपुर | -वही- |
| 51. | -वही- | 159-खेसरहा | रामदेव, ग्रा.-एकडंगवा पो.-चौरीखुर्द, सिद्धार्थ नगर । | -वही- |
| 52. | -वही- | -वही- | संजय कुमार, ग्रा. व पो.-जंगल बेलहर, संतकबीरनगर । | -वही- |
| 53. | -वही- | 231-औराई | दीना नाथ, ग्राम -चक भूइधर पो.-परसीपुर, संत रविदास नगर भदोही । | -वही- |
| 54. | -वही- | -वही- | राम आसरे, ग्राम - रेवड़ा परसपुर संत रविदास नगर भदोही । | -वही- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|-----------------------|---|--|
| 55. | उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007 | 231-औराई -(जारी) | राम सूरत, लीलाधरपुर बमनौटी, संत रविदास नगर भदोही । | निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे । |
| 56. | -वही- | 232-ज्ञानपुर | संजीव कुमार, नि. हीराचक लोहराखास, पोस्ट -गोपीगंज, संत रविदास नगर भदोही । | -वही- |
| 57. | -वही- | 287-लखना (अ.जा.) | चन्द्रशेखर दिवाकर ग्राम - निवड़ी तह. -भरथना इटावा । | -वही- |
| 58. | -वही- | -वही- | काली चरन, ग्राम -समसपुर, पो.-बिरौधी, तह. -भरथना इटावा । | -वही- |
| 59. | -वही- | 290-भरथना | करन सिंह, 146, बृजराजनगर, भस्थना । | -वही- |
| 60. | -वही- | -वही- | दुर्वेश, चन्द्रपुरा, सरसईनावर, इटावा । | -वही- |
| 61. | -वही- | -वही- | राजबिहारी, कल्याण नगर, भरथना, इटावा । | -वही- |
| 62. | -वही- | -वही- | संतोषबाबू, न. जिन्द, शेखपुर पचार, इटावा । | -वही- |
| 63. | -वही- | -वही- | इन्द्रपाल, ग्रा. मेंदीपुर, बकौली, इटावा । | -वही- |
| 64. | -वही- | 291-बिधूना | अशोक कुमार, ऊसरपाटी ग्राम बढिन, तह. बिधूना, जिला औरैया । | -वही- |
| 65. | -वही- | -वही- | राम अवतार, पुर्वा भग्गा मौजा धुपखरी, तह. बिधूना, औरैया । | -वही- |
| 66. | -वही- | -वही- | समीर सिंह, ग्रा. महु, तह. बिधूना, औरैया । | -वही- |
| 67. | -वही- | 292-कन्नौज (अ.जा.) | राम शरन कठेरिया, नि. करीम नगर, पो. व तह. तिर्वा, जिला-कन्नौज । | -वही- |
| 68. | -वही- | -वही- | लक्ष्मी रीटा, निवासी ग्राम कुबेरपुर, पो. कायमगंज, जिला-फर्रुखाबाद । | -वही- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|-------------------------|--|---|
| 69. | उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007 | 292-कन्नौज (अ.जा.) | तुलसी राम, निवासी-तेरारागी, पो. कूल्हापुर, जिला-कन्नौज । | निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे । |
| 70. | -वही- | -वही- | बेटालाल दिवाकर, निवासी म. नं. 528, मसवानपुर, पो. रावतपुर, जिला-कानपुर नगर । | -वही- |
| 71. | -वही- | 293-उमदा | हरिनाम, ग्राम-नुनारी, पो.-तिर्वा, कन्नौज । | -वही- |
| 72. | -वही- | -वही- | करन सिंह यादव, ग्राम-मदनापुर, पो. उमरन, कन्नौज । | -वही- |
| 73. | -वही- | 299-मानिकपुर (अ.जा.) | ननकू प्रसाद, ग्राम व पो. गोइयाकला कैमहाई, जिला चित्रकूट । | -वही- |
| 74. | -वही- | 300-कर्वी | देवी दयाल यादव, बारामाफी, कर्वी । | -वही- |
| 75. | -वही- | -वही- | श्याम लाल, सरधुवा, कर्वी । | -वही- |
| 76. | -वही- | -वही- | गया प्रसाद, अशोह, कर्वी । | निवाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे । |
| 77. | -वही- | 307-राठ | रामपाल सिंह, ग्रा. व पो. चिकासी, तह. सरीला, हमीरपुर । | निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे । |
| 78. | -वही- | 330-सोरो | अवनीश, ग्राम हरथरा, पो. अर्मापुर, एटा । | -वही- |
| 79. | वही- | 336-बाह | सुनील कुमार, पुरा विस्से, तहसील-बाह, आगरा । | -वही- |
| 80. | -वही- | -वही- | अशोक कुमार, ग्राम-क्योरी का पुरा (बीच), बाह, आगरा । | -वही- |
| 81. | -वही- | -वही- | रमेश, निवासी-उन्देरा, तहसील-किरावली, आगरा । | -वही- |
| 82. | -वही- | -वही- | राम सिंह, बिजौली, बाह, आगरा । | -वही- |
| 83. | -वही- | 337-फतेहाबाद | विनोद जादौन, इन्द्रायनी, पो.-पुरा कनैरा, बाह, आगरा । | -वही- |
| 84. | -वही- | -वही- | शिवसिंह सिसौदिया, कोलाराकलों, फतेहाबाद, उत्तर प्रदेश । | -वही- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|--------------------------|--|--|
| 85. | उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007 | 337-फतेहाबाद | पोहप सिंह, रामगढ़, पो. फतेहाबाद, आगरा । | निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे । |
| 86. | -वही- | 339-एतमादपुर (अ.जा.) | चन्द्रभान मौर्य , स्टेशन रोड, टूण्डला, उत्तर प्रदेश । | -वही- |
| 87. | -वही- | -वही- | प्रकाश चन्द्र मौर्य, स्टेशन रोड, टूण्डला चौराहा, उत्तर प्रदेश । | -वही- |
| 88. | -वही- | 340-दयालबाग | उपेन्द्र सिंह, ग्राम- नगला मदना, पोस्ट बनवारा, जि. फिरोजाबाद । | -वही- |
| 89. | -वही- | -वही- | जयचन्द, ग्राम-देवरैठा नं.-2, शाहगंज, आगरा । | -वही- |
| 90. | -वही- | -वही- | बनारसी लाल आजाद, 50/221, सिद्ध साहनी नगर, शाहगंज, आगरा । | -वही- |
| 91. | -वही- | -वही- | बल्देव, ग्राम-बिसेरीपाड, पोस्ट-बमरौली कटारा, आगरा । | -वही- |
| 92. | -वही- | -वही- | भेंवर सिंह, 38/130, नगला बूढी, दयालबाग, आगरा । | -वही- |
| 93. | -वही- | 341-आगरा कैन्टोनमेन्ट | जोगेन्द्र पाल बिल्ले, 2/110, कटारा उमर खॉ, ताजगंज, आगरा । | -वही- |
| 94. | -वही- | -वही- | दिनेश सिंह, 31/35/7-ए, सैनिक नगर , आगरा । | -वही- |
| 95. | -वही- | -वही- | देवेन्द्र उर्फ बीनू लवानिया, 62/257, नबला काछियान मुस्तफा क्वाटर, आगरा । | -वही- |
| 96. | -वही- | -वही- | कौशल कुमार जौहरी, 1727, आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा सैक्टर-7, आगरा । | -वही- |
| 97. | -वही- | -वही- | गीतम सिंह, 36/106-ए, गुम्मत तख्त पहलवान, आगरा । | -वही- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|--|----------------------------|--|--|
| 98. | उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007 | 341-आगरा कैन्टोनमेन्ट | जय प्रकाश, 30/6, अमिता नगर, नई आबादी, आगरा । | निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे । |
| 99. | -वही- | -वही- | वफाती, 352, नैना जाट, आगरा । | -वही- |
| 100. | -वही- | -वही- | श्रीमती सुखलेश रानी, 151, बरौली अहीर, आगरा । | -वही- |
| 101. | -वही- | -वही- | सुरेन्द्र कुमार, 31/180/8-ए, गुरुगोविन्द सिंह नगर, राजपुर चुंगी, आगरा । | -वही- |
| 102. | -वही- | -वही- | सोबरन सिंह, 30/10-डी, बल्देव नगर, गोबर चौकी, ताजगंज, आगरा । | -वही- |
| 103. | -वही- | 342-आगरा पूर्व | लाडली प्रसाद, 24/110 के-1, मोतीमहल, यमुना ब्रिज, आगरा । | -वही- |
| 104. | -वही- | -वही- | श्यामवीर, ग्राम वाघई, पो.-रजावली, जिला फिरोजाबाद । | -वही- |
| 105. | -वही- | -वही- | नितिन कोहली, डी- 557, कमला नगर, आगरा । | -वही- |
| 106. | -वही- | -वही- | शशांक अग्रवाल, 51, तुलसी विहार, दयाल बाग, आगरा । | -वही- |
| 107. | -वही- | 343-आगरा पश्चिम (अ.जा.) | अनिल कुमार, 46/182/36, नगला वेर, जगदीशपुरा, आगरा । | -वही- |
| 108. | -वही- | -वही- | दिलीप, 13/57, नाला बुढ़ान सैयद, हरी पर्वत, आगरा । | -वही- |
| 109. | -वही- | -वही- | विजय कुमार गौतम, 27/28ए, गोपाल पुरा, घड़ी भदौरिया, आगरा । | -वही- |
| 110. | -वही- | 344-खेरागढ़ | दलजीत सिंह कथूरिया, डी-14/1 सिविल कोर्ट कम्पाउंड, आगरा । | -वही- |
| 111. | -वही- | -वही- | रघुराज सिंह धाकरे, ग्राम. कुकावर, पो. बिरहरू, तह. खेरागढ़, आगरा । | -वही- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|--|------------------------|---|--|
| 112. | उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007 | 345-फतेहपुर सीकरी | गुलाब सिंह, ग्राम गहराकलाँ खेरिया प्रथम, थाना कागारौल, आगरा । | निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे । |
| 113. | -वही- | -वही- | दाऊजी दयाल, ग्राम व पोस्ट डाबर, उत्तर प्रदेश । | -वही- |
| 114. | -वही- | -वही- | रामबहोरी, न. अर्जुन, पो. अरतौनी, आगरा । | -वही- |
| 115. | -वही- | 353 - सासनी (अ.जा.) | शिव चरण, ग्राम नौजरपुर, पो. बसईकाजी, तह. सासनी, हाथरस । | -वही- |
| 116. | -वही- | -वही- | जयन्ती प्रताप, ग्राम नगला हरिया, समामई रूहल, तह. सासनी, हाथरस । | -वही- |
| 117. | -वही- | -वही- | राम प्रसाद, ग्राम नगला, संवला मौजा हींगोट खेरिया, आगरा । | -वही- |
| 118. | -वही- | -वही- | ऋषिकुमार, ग्राम समामई रूहल, तह. सासनी, हाथरस । | -वही- |
| 119. | -वही- | 355-गंगीरी | रामेश्वर सिंह यादव, ग्रा. व पो. पहाड़ीपुर, जि. अलीगढ़ । | -वही- |
| 120. | -वही- | -वही- | मुजाहिद खां (गुड्डू), ग्रा. परोरा, पो. दतावली, जि. अलीगढ़ । | -वही- |
| 121. | -वही- | -वही- | राधेश्याम, ग्राम कंचनपुर, पो. हारनपुरकलां, तह. अतरौली, थाना दादों, अलीगढ़ । | -वही- |
| 122. | -वही- | 357-अलीगढ़ | भगवती प्रसाद, 18/57, मौहल्ला समना, पाडा, अलीगढ़ । | -वही- |
| 123. | -वही- | -वही- | संदीप, 2/471, विष्णुपुरी, रामघाट रोड, अलीगढ़ । | -वही- |
| 124. | -वही- | 359-इगलास | नैपाल सिंह, ग्राम-नुनेरा, पो.-नगला जगदेव, अलीगढ़ | -वही- |
| 125. | -वही- | -वही- | प्रशान्त, मौ. किला खेडा, इगलास, अलीगढ़ । | -वही- |
| 126. | -वही- | -वही- | ब्रजलाल शर्मा, सरस्वतीपुरी, इगलास, अलीगढ़ । | -वही- |
| 127. | -वही- | -वही- | श्याम प्रकाश, मौ. दर्जियान, कम्बा वेसवां अलीगढ़ । | -वही- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|--|---------------------|--|--|
| 128. | उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2007 | 362-जेवर (अ.जा.) | राजपाल, ग्राम भुमरेजपुर, तहसील खुर्जा, बुलन्दशहर । | निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे । |
| 129 | -वही- | -वही- | प्रेमपाल, ग्राम दस्तुरा, डा. बीछट, सुजानपुर, खुर्जा, बुलन्दशहर । | -वही- |
| 130. | -वही- | -वही- | मुनेश कुमार, ग्राम मुढरह, डा. रन्हेरा, गौतमबुद्धनगर । | -वही- |
| 131. | -वही- | -वही- | हरीश कुमार, ग्राम बलराऊ, डा. मीरपुर बुलन्दशहर । | -वही- |
| 132. | -वही- | 384-खेकड़ा | धर्मेन्द्र कुमार, 1-झण्डापुर सी. ई. एल. साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद । | -वही- |
| 133. | -वही- | -वही- | मनोज धामा, बेहटा हाजीपुर, लोनी, जिला गाजियाबाद । | -वही- |
| 134. | -वही- | 385-बागपत | अनिल, म. नं. 3437 पट्टी भवाला-2, छपरौली, तह. बडौत, जनपद- बागपत । | -वही- |
| 135. | -वही- | -वही- | किशन, ग्राम व डाक, मीतली, जि. बागपत । | -वही- |
| 136. | -वही- | -वही- | धर्मेन्द्र, म. नं.-17/306, मेहर बडौत, जनपद बागपत। | -वही- |
| 137. | -वही- | -वही- | सुभाष गिरि, चिपथाना बुजुर्ग लाल कुआँ, चिपथाना रोड, पंच बिहार कालोनी, गौतमबुद्धनगर । | -वही- |
| 138. | -वही- | -वही- | ओम प्रकाश, गुराना रोड -2, बडौत, जिला- बागपत । | -वही- |
| 139. | -वही- | -वही- | कृष्ण पाल, म. नं. -3854, धनकोशिया -3 छपरौली, जनपद-बागपत । | -वही- |
| 140. | -वही- | 386-बरनावा | नसीम, ग्राम-जसड सुल्तान नगर, तह.-सरधना, जिला मेरठ । | -वही- |
| 141. | -वही- | -वही- | शान मौ., 13/470, फूलवाला तालाब बडौत, जिला- बागपत । | -वही- |
| 142. | -वही- | 387-छपरौली | सहन्सर, ग्राम हलालपुर, जिला- बागपत । | -वही- |
| 143. | -वही- | -वही- | सतीश, ग्राम -छपरौली, जिला- बागपत । | -वही- |

[सं. 76/ उ.प्र.- वि.स. /2007]

आदेश से,
आर. के. श्रीवास्तव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th June, 2008

O.N. 53.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the table below at the General Elections to the Legislative Assembly in the State of Uttar Pradesh as specified in column (2) held from the Constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge the account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said table;

And, whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notices and/or the Election Commission, after considering the representation made by them, if any is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either house of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

| Sl. No. | Particular of Election | Sl. No. & Name of Constituency | Name & Address of Contesting Candidates | Reason of Disqualification |
|---------|--|--------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2007 | 59-Biswan | Ramdas, Vill.-Nauva Khera, P.O. Kutubpur Sitapur. | Failed to lodge any account of his/her election expenses. |
| 2. | -do- | 79-Hadha | Jawahar Lal Alias Jawahir, Vill. & P.O. Padri Kalan, Unnao. | -do- |
| 3. | -do- | 80-Bhagwant Nagar | Anil Verma, Vill. Bhatkherwa Kala P.O. Dhanuhi Khera, Tehsil, Bighapur, Unnao. | -do- |
| 4. | -do- | 83-Malihabad (SC) | Vinod Kumar, Begariya Kheda Dubagga, Lucknow | -do- |
| 5. | -do- | -do- | Shri Ram, Hayat Nagar, Barawan Kala, Lucknow. | -do- |
| 6. | -do- | -do- | Anand Rao , F-761 Rajajipuram, Lucknow. | -do- |
| 7. | -do- | -do- | Ajay Kumar, Jehta, P.O. Kakori, Lucknow. | -do- |
| 8. | -do- | -do- | Kamta , Shivpuri, Bhadwana, Lucknow. | -do- |
| 9. | -do- | -do- | Chandrapal, Kanar, P.O.- Kakori, Lucknow. | -do- |
| 10. | -do- | -do- | Naresh Kumar, Sinduria Bagh, Mahatwana, P.O. Sandila, Hardoi. | -do- |
| 11. | -do- | -do- | Ramesh Kumar, Jankapur, Sukkha Kheda, P.O. Mall , Lucknow. | -do- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|---------------------|---|---|
| 12. | General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2007 | 83-Malihanabad (SC) | Rajendra Lahari, Veerpur, Mall, Lucknow. | Failed to lodge any account of his/her election expenses. |
| 13. | -do- | 85-Lucknow East | Arvind, 63, T.C.L. Colony, Sarojini Nagar, Lucknow. | -do- |
| 14. | -do- | -do- | Padma Sahu, 82/75K, Guru Govind Singh Marg, Lalkuwan, Lucknow. | -do- |
| 15. | -do- | -do- | Ram Lakhan Gupta, Adarsh Nagar Khand-1, H. No. 633, Kanchanpur, Matiyari Chinhaat, Lucknow. | -do- |
| 16. | -do- | -do- | Surendra Kumar, H. No. 193, Dungawa (Raniganj), Lucknow. | -do- |
| 17. | -do- | -do- | Sanjay Singh, 2-3/886, Manas Nagar, Lucknow. | -do- |
| 18. | -do- | -do- | Girish Dutt Pande, E-7, Pande Ka Talab Colony, Lucknow. | -do- |
| 19. | -do- | 87-Lucknow Central | Nagendra Mohan, 256/11, Khajuha, Lucknow. | -do- |
| 20. | -do- | -do- | Manjoor Ahmed, C- 189, Indiranagar, Lucknow. | -do- |
| 21. | -do- | -do- | Gulab Chandra, Gazi Haidar Canal, B Block, Rajajipuram, Lucknow. | -do- |
| 22. | -do- | -do- | Mohammad Arif, 193/61, Gaus Ganj, P.S. Vazirganj, Lucknow. | -do- |
| 23. | -do- | -do- | Satish Chandra Singh, E-2268, Sec. 6, Rajajipuram,, Lucknow. | -do- |
| 24. | -do- | -do- | Ankur Kumar, 417/41/212, Panni Wali Gali, Newaj Ganj, Lucknow. | -do- |
| 25. | -do- | -do- | Pravesh Kumar Singh, 12/1, Quarter Chitta Khera, Aaishbagh, Lucknow. | -do- |
| 26. | -do- | -do- | Ravi Dube, F-1/8, Rajajipuram, Lucknow. | -do- |
| 27. | -do- | 89-Sarojini Nagar | Santosh Kumar Yadav, Vill. Sallahi Mau, Post Mahmoodpur Mau, Lucknow. | -do- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|-------------------------|---|---|
| 28. | General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2007 | 89-Sarojini Nagar | Pankaj Kumar Rawat, Baag No. 02, Sarojnagar, Kanpur Road, Lucknow. | Failed to lodge any account of his/her election expenses. |
| 29. | -do- | -do- | Bachan Singh Yadav, Vill. & Post Maunda, P.S. Kakori, Distt. Lucknow. | -do- |
| 30. | -do- | -do- | Rakesh Kumar Maurya, E-1194, Rajajipuram, Lucknow. | -do- |
| 31. | -do- | -do- | Laloo Yadav, Vill. & H. No. 295, Bada Gaon, Post Kakori, Tehsil & Distt. Lucknow. | -do- |
| 32. | -do- | -do- | Krishna Kumar Pandey, Vill. Salempur Pataura, Post Kakori, Distt. Lucknow. | -do- |
| 33. | -do- | -do- | Chandrawati, Vill. Sadullah Khera, Post Chandraval, Tehsil Sadar, Distt. Lucknow. | -do- |
| 34. | -do- | -do- | Baijnath, Akbarpur, Beniganj, Post Hamalpur, Lucknow. | -do- |
| 35. | -do- | -do- | Waheed Khan, Vill. Gauriya Khurd, H/o Gauriya Kalan, Post Rasulpur, Tikniya Mau, Tehsil Mohanlalganj, Lucknow. | -do- |
| 36. | -do- | -do- | Shrawan Kumar, Vill. Salempur Pataura, Post Kakori, Distt. Lucknow. | -do- |
| 37. | -do- | -do- | S.N. Singh, 31/2, Pathakpuram, Utratthia, Lucknow-25. | -do- |
| 38. | -do- | -do- | Ram Sanehi Yadav, Vill. Purahi Khera, H/O Khandedev, Post Banthra, Distt. Lucknow. | -do- |
| 39. | -do- | -do- | Sunil Kumar, Vill. Sadullah Nagar, Post Terwa, Lucknow. | -do- |
| 40. | -do- | 90-Mohanlalganj (SC) | Ram Suchit Rawat, Vill. Amova Murtazapur, Mohanlalganj, Lucknow. | -do- |
| 41. | -do- | -do- | Dinesh, Vill. Saunai Kanjehra, P.O. Bakkash, Mohanlalganj, Lucknow. | -do- |
| 42. | -do- | -do- | Raghvendra Bharti, Vill. Tonia Biharipur, P.O. Mauyadubanshpur, Distt. Faizabad. | -do- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|----------------------|--|---|
| 43. | General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2007 | 90-Mohanlalganj (SC) | Shyam Bihari, Vill. Mahurakalan, P.O. Hasnapur, Lucknow. | Failed to lodge any account of his/her election expenses. |
| 44. | -do- | 119-Bikapur | Nanhe Lal, Vill. & Post Kanawan, Tahsil Bikapur, Distt. Faizabad. | -do- |
| 45. | -do- | -do- | Bhanu Pratap Singh Urfa, Bhayankar Ali Khan, Vill. & Post- Asrewa, Bikapur, Distt. Faizabad. | -do- |
| 46. | -do- | -do- | Rajaram, Vill. & Post-Netwari, Chaturpur, Tahsil Bikapur, Distt. Faizabad. | -do- |
| 47. | -do- | -do- | Ram Kumar, Vill. & Post-Paliachalpur, Tahsil Bikapur, Distt. Faizabad. | -do- |
| 48. | -do- | -do- | Narendra Kumar, Vill. Tenduamafi, H.No. 35, Bikapur, Distt. Faizabad. | -do- |
| 49. | -do- | 122-Rudauli | Birendra Kumar, Vill- Pirkhauli, Post-Baragaon, Tehsil-Sohawal, Distt.-Faizabad. | -do- |
| 50. | -do- | 137-Ikauna (SC) | Kallu, Vill. & Post Kalwari, Distt. Balrampur. | -do- |
| 51. | -do- | 159-Khesraha | Ramdev, Vill. Ekdangwa, Post Chaurikhurd, Distt. Siddharthanagar. | -do- |
| 52. | -do- | -do- | Sanjay Kumar, Vill. & Post Jangal Belhar, Distt. Santkabirnagar. | -do- |
| 53. | -do- | 231-Aurai | Dina Nath, Vill.- Chak Bhuidhar, Post- Parasipur, S.R.N. Bhadohi. | -do- |
| 54. | -do- | -do- | Ram Ashre, Vill. & Rewada, Paraspur, S.R.N. Bhadohi. | -do- |
| 55. | -do- | -do- | Ram Surat, Liladharpur Babhnauti, S.R.N. Bhadohi. | -do- |
| 56. | -do- | 232-Gyanpur | Sanjeev Kumar, Vill. Hirachak Loharakhas, Post- Gopiganj, S.R.N. Bhadohi. | -do- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|------------------|---|---|
| 57. | General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2007. | 287-Lakhna (SC) | Chandra Shekhar Diwakar, Vill.- Niwari, Teh.- Bharthana, Etawah. | Failed to lodge any account of his/her election expenses. |
| 58. | - do - | - do - | Kali Charan, Vill.- Samaspur, Post-Birondhi, Tah.-Bharthana, Etawah. | - do - |
| 59. | - do - | 290-Bharthana | Karan Singh, 146, Brijrajnagar, Bharathana. | - do - |
| 60. | - do - | - do - | Durvesh, Chandpura, Sarsainawar, Etawah. | - do - |
| 61. | - do - | - do - | Rajbihari, Kalyannagar, Bharathana, Etawah. | - do - |
| 62. | - do - | - do - | Santosh Babu, Nagla Jind Shekhpur Pachar, Etawah. | - do - |
| 63. | - do - | - do - | Indrapal, Vill. Medipur Bakauli, Etawah. | - do - |
| 64. | - do - | 291-Bidhuna | Ashok Kumar, Usar Pati Badhina, Tehsil Bidhuna, Distt. Auraiya. | - do - |
| 65. | - do - | -do- | Ram Avatar, Purwa Bhagga Mauja Dhupkhari, Tehsil Bidhuna, Auraiya. | - do - |
| 66. | - do - | - do - | Samir Singh, Village Mahu, Tehsil Bidhuna, Auraiya. | - do - |
| 67. | - do - | 292-Kannauj (SC) | Ram Sharan Katheriya, R/o Karim Nagar, Post & Tehsil Tirwa, Distt. Kannauj. | - do - |
| 68. | - do - | - do - | Laxmi Reeta, R/o Vill. Kuberpur, Post- Kaimganj, Distt. Farrukhabad. | - do - |
| 69. | - do - | - do - | Tulsi Ram, R/o Teraragi, Post- Kulahapur, Distt. Kannauj. | - do - |
| 70. | - do - | - do - | Betalal Divakar, R/o H.No. 528, Maswanpur, Post- Rawatpur, Distt. Kanpur Nagar. | - do - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|-------------------|--|---|
| 71. | General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2007. | 293-Umarda | Harinam, Vill.-Nunari, P.O. Tirwa, Distt.- Kannauj. | Failed to lodge any account of his/her election expenses. |
| 72. | - do - | - do - | Karan Singh Yadav, Madanapur, P.O.- Umran, Distt.- Kannauj. | - do |
| 73. | - do - | 299-Manikpur (SC) | Nanku Prasad, Vill. & P.O. Goiyakala Kiamhigh, Distt.- Chitrakoot. | - do - |
| 74. | - do - | 300-Karwi | Devi Dayal Yadav, Baramafi, Karwi. | - do - |
| 75. | - do - | - do - | Shyam Lal, Sardhuwa, Karwi. | - do - |
| 76. | - do - | - do - | Gaya Prasad, Ashoh, Karwi. | Failed to lodge the account of his/her election expenses in the manner required by law. |
| 77. | - do - | 307-Rath | Rampal Singh, Vill. & P.S. Chikasi, Distt. Hamirpur. | Failed to lodge any account of his/her election expenses. |
| 78. | - do - | 330-Soron | Avaneesh, Vill. Harthara, Post Amapur, Etah. | - do - |
| 79. | - do - | 336-Bah | Sunil Kumar, Pura Bissay, Teh.- Bah, Agra. | - do - |
| 80. | - do - | - do - | Ashok Kumar, Vill.- Quori Ka Pura (Beech), Bah, Agra. | - do - |
| 81. | - do - | - do - | Ramesh, Vill. - Undeara, Teh.- Kirawali, Agra. | - do - |
| 82. | - do - | - do - | Ram Singh, Bijoli, Bah, Agra. | - do - |
| 83. | - do - | 337-Fatehabad | Vinod Jadaun, Indrayani, P.O. Pura Kanera, Bah, Agra. | - do- |
| 84. | - do - | - do - | Shiv Singh Sisodia, Kolara Kalan, Fatehabad, Uttar Pradesh. | - do - |
| 85. | - do - | - do - | Pohap Singh, Vill. Ramgarh, P.O. Fatehabad, Agra. | - do - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|---|---------------------|--|---|
| 86. | General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2007. | 339-Etmadpur (SC) | Chandra Bhan Maurya, Station Road, Tundla, Uttar Pradesh. | Failed to lodge any account of his/her election expenses. |
| 87. | - do - | - do - | Prakash Chandra Maurya, Station Road, Tundla Chauraha, Uttar Pradesh. | - do - |
| 88. | - do - | 340-Dayalbagh | Upendra Singh, Vill. Nagla Madna, Post Banwara, Distt. Firozabad. | - do - |
| 89. | - do - | - do - | Jaichand, Vill.- Devretha No. 2 Shahganj, Agra. | - do - |
| 90. | - do - | - do - | Banarasi Lal Azad, 50/221 Sidh Sahani Nagar, Shahganj, Agra. | - do - |
| 91. | - do - | - do - | Baldev, Vill.- Bishari Bhan, Post- Bamroli Katara, Agra. | - do - |
| 92. | - do - | - do - | Bhanwar Singh, 38/130 Nagla Budhi, Dayalbagh, Agra. | - do - |
| 93. | - do - | 341-Agra Cantonment | Jogendra Pal Ville, 2/110 Katra Umar Khan, Tajganj, Agra. | - do - |
| 94. | - do - | - do - | Dinesh Singh, 31/35/7-A Sanik Nagar, Agra. | - do - |
| 95. | - do - | - do - | Devendra Alias Veenu Lavania, 62/257 Nagla Kachiyan Mustafa Quarter, Agra. | - do - |
| 96. | - do - | - do - | Kaushal Kumar Johri, 1727, Avash Vikash Colony, Sikandra Sector-7, Agra. | - do - |
| 97. | - do - | - do - | Gitam Singh, 36/106-A, Gummat Takhat Pahalwan, Agra. | - do - |
| 98. | - do - | - do - | Jai Prakash, 30/6, Amita Nagar, Nai Abadi, Agra. | - do - |
| 99. | - do - | - do - | Wafati, 352, Nenana Jat, Agra. | - do - |
| 100. | - do - | - do - | Smt. Sukhlesh Rani, 151, Baroli Aheer, Agra. | - do - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|---|---------------------|---|---|
| 101. | General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2007. | 341-Agra Cantonment | Surendra Kumar, 31/180/8-A, Guru Govind Singh Nagar, Rajpur Chungi, Agra. | Failed to lodge any account of his/her election expenses. |
| 102. | - do - | - do - | Sovaran Singh, 30/10-D, Baldev Nagar, Gobar Choki, Taj Ganj, Agra. | - do - |
| 103. | - do - | 342-Agra East | Ladli Prasad, 14/11 O-A-I, Moti Mahal Jamuna Bridge, Agra. | - do - |
| 104. | - do - | - do - | Shyamveer, Village- Baghai, Post- Rajawali, Firozabad. | - do - |
| 105. | - do - | - do - | Nitin Kohli, D-557, Kamla Nagar, Agra. | - do - |
| 106. | - do - | - do - | Shashank Agarwal, 51, Tulsi Vihar, Dayal Bagh, Agra. | - do - |
| 107. | - do - | 343-Agra West (SC) | Anil Kumar, 46/182/36 Nagla Ber Jagdishpura, Agra. | - do - |
| 108. | - do - | - do - | Dileep, 13/57, Nala Budhan Sayyad, Hari Parwat, Agra. | - do - |
| 109. | - do - | - do - | Vijay Kumar Gautam, 27/28A, Gopalpura, Gadi Bhadauriya, Agra. | - do - |
| 110. | - do - | 344- Kheragarh | Daljit Singh Kathuriya, D-14/1 Civil Court Compound, Agra. | - do - |
| 111. | - do - | - do - | Raghuraj Singh Dhakre, Vill. Kukawar, Post Birahru, Tehsil Kheragarh, Agra. | - do - |
| 112. | - do - | 345-Fatehpur Sikri | Gulab Singh, Vill. Gaharra Kalan, Post Kheria-I, Thana Kagarol, Agra. | - do - |
| 113. | - do - | - do - | Dauji Dayal, Vill. & Post Dabar, Uttar Pradesh. | - do - |
| 114. | - do - | - do - | Ram Bahori, Vill.- Nagla Arjun, Post-Artoni, Agra. | - do - |
| 115. | - do - | 353-Sasni (SC) | Shiv Charan, Nojerpur, Vasai Kaji, Teh.-Sasni, Hathras. | - do - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|---|----------------|--|---|
| 116. | General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2007. | 353-Sasni (SC) | Jayanti Pratap, Nagla Hariya, Samamai Roohal, Sasni, Hathras. | Failed to lodge any account of his/her election expenses. |
| 117. | - do - | - do - | Ram Prasad, Nagla Sanwala, Hingot Kheriya, Agra. | - do - |
| 118. | - do - | - do - | Rishi Kumar, Samamai Roohal, Teh.- Sasni, Hathras. | - do - |
| 119. | - do - | 355-Gangiri | Rameshwar Singh Yadav, Vill. & P.O. Pahadipur, Aligarh. | - do - |
| 120. | - do - | - do - | Muzahid Khan (Guddu), Vill.- Parora, P.O. Datawali, Aligarh. | - do - |
| 121. | - do - | - do - | Radhey Shyam, Vill.- Kanchanpur, P.O. Haranpur Kalan, Tehsil Atrauli, P.S. Dadon, Aligarh. | - do - |
| 122. | - do - | 357-Aligarh | Bhagwati Prasad, 18/57, Samna Para, Aligarh. | - do - |
| 123. | - do - | -do- | Sandeep, 2/471, Vishnupuri, Ramghat Road, Distt. Aligarh. | -do- |
| 124. | - do - | 359-Iglas | Nepal Singh, Vill. Nunaira, P.O. Nagala Jagdev, Aligarh. | - do - |
| 125. | - do - | - do - | Prashant, Moh. Kila Kheda, Iglas, Aligarh. | - do - |
| 126. | - do - | - do - | Brajlal Sharma, Saraswatipuri, Iglas, Aligarh. | -do- |
| 127. | - do - | - do - | Shyam Prakash, Moh. Darjiyan Kasba Beswan, Aligarh. | - do - |
| 128. | - do - | 362-Jewar (SC) | Raj Pal, V. Mumrej Pur, Teh. Khurja, Bulandshahar. | - do - |
| 129. | - do - | - do - | Prem Pal, Vill. Dastura, P.O. Sujampur Khurja, Bulandshahar. | - do - |
| 130. | - do - | - do - | Munesh Kumar, Vill. Mudrah, P.O. Ranhera, Gautambudh Nagar. | - do - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|---|----------------|--|---|
| 131. | General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2007. | 362-Jewar (SC) | Harish Kumar, Vill. Balarau, P.O. Mirpur, Bulandshahar. | Failed to lodge any account of his/her election expenses. |
| 132. | - do - | 384-Khekra | Dharmendra Kumar, 1-Jhandapur C.E.L. Sahibabad, Distt. Ghaziabad. | - do - |
| 133. | - do - | - do - | Manoj Dhama, Behta Hazipur, Loni, Distt. - Ghaziabad. | - do - |
| 134. | - do - | 385-Baghpat | Anil, 3437, Putti Bhawala-2 Chaprauli, Tehsil- Baraut, District- Baghpat. | - do - |
| 135. | - do - | - do - | Kishan, Vill.& Post- Meetali, District - Baghpat. | - do - |
| 136. | - do - | - do - | Dharmendra, 17/306, Putti Mehar Baraut, District - Baghpat. | - do - |
| 137. | - do - | - do - | Subhash Giri, Chipyana Bujurg Lal Kuvan, Cipyana Road Panch Bihar Coloni, Gautambudhnagar. | - do - |
| 138. | - do - | - do - | Om Prakash, Gurana Road-2, Baraut, District-Baghpat. | - do - |
| 139. | - do - | -do- | Krishna Pal 3854, Dhankoshiya-3 Chaprauli, District- Baghpat. | -do- |
| 140. | - do - | 386-Barnawa | Naseem, Vill.- Jasar Sultan Nagar, Teh. Sardhana, Distt. Meerut. | - do - |
| 141. | - do - | - do - | Shan Mohd., 13/470, Phool Wala Talab Baraut, Distt.- Baghpat. | - do - |
| 142. | - do - | 387-Chhaprauli | Sahansar, Vill. Halalpur, Distt. Baghpat. | - do - |
| 143. | - do - | - do - | Satish, Vill.- Chhaprauli, District- Baghpat. | - do - |

[No. 76/UP-LA/2007]

By Order,
R. K. SRIVASTAVA, Secy.